

B.Com.(with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem III  
**BCOM237C - Banking & Insurance : Law & Practices-I**

P. Pages : 3



Time : Three Hours

GUG/W/16/2969

Max. Marks : 80

- Notes : 1. All questions are compulsory.  
2. All questions carry equal marks.

1. a) Give the meaning and functions of Co-operative Bank. 8  
b) Explain the role of co-operative bank in the emerging economy. 8

**OR**

- c) Explain the nature and functions of Commercial Bank. 16  
2. a) Distinguish between short term credit & median term credit of Rural co-operative bank. 8  
b) Give in details the Co-operative institutions which provides long term credit in Rural area. 8

**OR**

- c) Define 'kisan credit card' and state its advantages to card holder. 16  
3. a) Narrate the principles of life insurance. 8  
b) List the documents which are required for life insurance policy. 8

**OR**

- c) Explain the various life Insurance plan which are regularly benefited to after retirement. 16  
4. a) Explain the principles of General Insurance. 8  
b) State the advantages of General Insurance. 8

**OR**

- c) Explain the types of General Insurance with its benefits. 16  
5. Write short notes. 16  
a) Origin of Co-operative bank.  
b) Long term credit.  
c) Surrender value of Insurance policy.  
d) Features of General Insurance.

\*\*\*\*\*

**B.Com.(with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem III**  
**BCOM237C - Banking & Insurance : Law & Practices-I**

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

सूचना :- 1. सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत  
2. सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. अ) सहकारी अधिकोषाचा अर्थ आणि कार्य स्पष्ट करा. 8  
ब) सहकारी अधिकोषांची अर्थव्यवस्थे मधील भुमीका विशद करा. 8

किंवा

2. अ) व्यापारी बँकेचे स्वरूप आणि कार्य विशद करा. 16  
ब) ग्रामीण सहकारी अधिकोषाच्या लघु मुदती ऋण आणि मध्यम मुदती ऋण यातील फरक स्पष्ट करा. 8  
ब) ग्रामीण क्षेत्रात दिर्घ मुदती ऋण देणाऱ्या सहकारी संस्था बद्दल सविस्तर लिहा. 8

किंवा

3. अ) “किसान क्रेडीट कार्ड” ची व्याख्या देऊन कार्डधारकाला त्याचे फायदे सांगा. 16  
ब) जीवन विम्याची माहिती लिहा. 8  
ब) जीवन विमा पॉलीसी काढण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे सांगा. 8

किंवा

4. अ) सेवानिवृत्तीनंतर नियमीत लाभ देणाऱ्या जीवन विम्याच्या विविध योजना सांगा. 16  
ब) सामान्य विम्याची तत्वे विशद करा. 8  
ब) सामान्य विम्याचे फायदे सांगा. 8

किंवा

5. थोडक्यात लिहा.  
अ) सहकारी अधिकोषाचा उगम.  
ब) दिर्घ मुदती ऋण.  
क) विमा पॉलीसीचे समर्पित (सरेंडर) मुल्य.  
ड) सामान्य विम्याचे वैशिष्ट्ये.

\*\*\*\*\*

**B.Com.(with Credits)-Regular-Semester 2012 Sem III**  
**BCOM237C - Banking & Insurance : Law & Practices-I**

Time : Three Hours

Max. Marks : 80

- सूचनाएँ :-
1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
  2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अ) सहकारी अधिकोष का अर्थ एवं कार्य स्पष्ट कीजिये। 8  
ब) सहकारी अधिकोष अर्थव्यवस्था में भुमिका (Role) विशद कीजिये। 8

अथवा

2. अ) व्यापारी बँक का स्वरूप एवं कार्य विशद कीजिये। 16  
ब) ग्रामीण सहकारी बँकों का लघु मुदती ऋण एवं मध्यम मुदती ऋण इनमें भेद दर्शाइयें। 8  
ब) ग्रामीण क्षेत्र में दिघ मुदती ऋण देणेवाले सहकारी संस्थोंके बारे में विस्तारपूर्वक लिखीयें। 8

अथवा

3. अ) 'किसान क्रेडीट कार्ड' की संकल्पना देकर कार्डधारक को इसके लाभ बतलाइयें। 16  
ब) जीवन बिमा के बारे में लिखिये। 8  
ब) जीवन बिमा पॉलीसी निकालने के लिये आवश्यक कागजात बतलाइयें। 8

अथवा

4. अ) सेवा निवृत्ति के बाद निरंतर लाभ देणेवाले जीवन बिमा की विविध योजना बतलाइयें। 16  
ब) सामान्य बिमाकी तर्चे विशद कीजिये। 8  
ब) सामान्य बिमाके लाभ बतलाइयें। 8

अथवा

5. संक्षिप्त में लिखीये.
- अ) सहकारी अधिकोष का उगम।  
ब) दिघ मुदती ऋण।  
क) बिमा पॉलीसीका सरेंडर (समर्पित) मुल्य।  
ड) सामान्य बिमाकी विशेषताएँ।

\*\*\*\*\*

munotes.in